

M.P. JUDICIAL SERVICE (CIVIL JUDGE) MAIN EXAMINATION -2018

अनुक्रमांक/Roll No.

--	--	--	--

कुल प्रश्नों की संख्या : 5
Total No. of Questions : 5

मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 6
No. of Printed Pages : 6

ARTICLE & SUMMARY WRITING

लेखन एवं संक्षेपण

Second Question Paper

द्वितीय प्रश्न-पत्र

समय – 3:00 घण्टे
Time Allowed – 3:00 Hours

पूर्णांक – 100
Maximum Marks - 100

निर्देश :-

Instructions :-

1. All questions are compulsory. In case of any ambiguity between English and Hindi version of the question, the English version shall prevail.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यदि किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ के बीच कोई संदिग्धता है, तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary Sheet. Writing of his/her own Name or Roll No. or any Number or any mark of identification in any form in any place of the Answer Book not provided for, by which the Answer Book of a candidate may be distinguished/ identified from others, is strictly prohibited and shall, in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.

उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित करना जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषिद्ध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।

3. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer Book may not be done.

सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर-पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्ता/मूल्यांकनकर्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

P.T.O.

Q.No. / प्र.क्र.	Question / प्रश्न	Marks / अंक
1.	<p>Write an article in Hindi or English, on any one of the following social topics:</p> <p>निम्नलिखित social विषयों में से किसी एक पर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में लेख लिखिए:</p> <p>(i) National Citizen Register (NCR) राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर</p> <p>(ii) Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojna आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना</p>	30
2.	<p>Write an article in Hindi or English, on any one of the following legal topics:-</p> <p>निम्नलिखित legal विषयों में से किसी एक पर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में लेख लिखिए :</p> <p>(i) Concept of NOTA (None of the Above) नोटा (उपरोक्त में कोई नहीं) की अवधारणा</p> <p>(ii) Constitutionality of Section 377 IPC धारा 377 भा.दं.वि. की संवैधानिकता</p>	20
3-	<p>Summarize the one of the following English /Hindi passage –</p> <p>निम्नलिखित अंग्रेजी/हिन्दी अंश में से किसी एक का संक्षिप्तिकरण कीजिए –</p>	20

It is very easy to acquire bad habits, such as eating too many sweets or too much food, or drinking too much fluid of any kind, or smoking. The more we do a thing, the more we tend to like doing it; and, if we do not continue to do it, we feel unhappy. This is called the force of habit, and the force of habit should be fought against.

Habits which may be very good only done from time to time, tend to become very harmful when done too often and too much. This applies even to such good habits as work or rest. Some people from a bad habit of working too much, and others of idling too much. The wise man always remembers that this is true about

himself, and checks any bad habit. He says to himself. "I am now becoming idle." or "I like too many sweets" or "I smoke too much" and then adds." I will get myself out of this bad habit at once."

One of the most widely spread of bad habits is the use of tobacco. Tobacco is now smoked or chewed by men, often by women, and even by children, almost all over the world. It was brought into Europe from America by Sir Walter Raleigh, four centuries ago, and has thence spread everywhere. I very much doubt whether there is any good in the habit, even when tobacco is not used to excess; and it is extremely difficult to get rid of the habit when once it has been formed.

Alcohol is taken in almost all cool and cold climates, and to a very much less extent in hot ones. Thus, it is taken by people who live in the Himalaya Mountains, but not so much by those who live in the plains of India. Alcohol is not necessary in any way to anybody. Millions of people are beginning to do without it entirely. When once the United States of America have passed laws which forbid its manufacture or sale throughout the length and breadth of their vast country, then in India it is not required by the people at all, and should be avoided by them altogether. The regular use of alcohol, even in small quantities, tends to cause mischief in many ways to various organs of the body. It affects the liver, It weakness the mental powers, and lessens the general energy of the body.

अथवा / **OR**

बुरी आदतों को अपनाना बहुत आसान है, जैसे कि बहुत सारी मिठाई या बहुत खाना खाने या किसी भी तरह के तरल पदार्थ को बहुत मात्रा में पीना या धूम्रपान करना। जितना अधिक हम कोई कार्य करते हैं, उतना ही हम इसे करना पसंद करते हैं,

और अगर हम इसे जारी नहीं रखते हैं तो अप्रसन्न महसूस करते हैं। इसे आदत की शक्ति कहा जाता है और इस आदत की शक्ति के खिलाफ लड़ा जाना चाहिए।

आदतें, जो समय-समय पर बहुत अच्छी हो सकती हैं, जब प्रायः और अत्यधिक की जाती है तो वे हानिकारक हो जाती हैं। यह बात काम या आराम जैसी अच्छी आदतों पर भी लागू होती है। बहुत से लोग अत्यधिक कार्य करने की बुरी आदत अपनाते हैं और दूसरे अत्यधिक सुस्त रहने की आदत अपनाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति सदैव यह याद करता है कि उसके लिये क्या सही है तथा बुरी आदतों को अपनाने से स्वयं को रोकता है। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा याद करता है कि "मैं सुस्त हो रहा हूँ" या "मैं कई मिठाई खाना पसंद करता हूँ" या "मैं अत्यधिक धूम्रपान करता हूँ" और आगे कहता है "मैं खुद को इस बुरी आदत से एक बार में निकाल लूँगा।"

इन बुरी आदतों में तम्बाकू के उपयोग का व्यापक रूप से फैलाव है। अब पुरुषों, महिलाओं और यहाँ तक कि बच्चों द्वारा भी दुनिया भर में तम्बाकू का उपयोग धूम्रपान या चबाकर किया जाता है। इसे चार शताब्दियों पहले सर वाल्टर रालेघ द्वारा यूरोप में अमेरिका से लाया गया था और वहाँ से यह हर जगह फैल गया। इस आदत में कुछ भी अच्छा होने के संबंध में मुझे अत्यधिक संदेह है, भले ही तम्बाकू का अत्यधिक उपयोग न किया जाये और यदि एक बार यह आदत पड़ जाये तो उससे छुटकारा पाना अत्यधिक कठिन है।

शराब को लगभग ठण्डे एवं शीत वातावरण में लिया जाता है और गर्मियों में बहुत कम मात्रा में लिया जाता है। इस प्रकार, यह उन लोगों द्वारा लिया जाता है जो हिमालय पर्वतमाला में रहते हैं, लेकिन भारत के मैदानों में रहने वाले लोगों के द्वारा इतनी अधिक मात्रा में नहीं लिया जाता है। शराब किसी के लिये किसी भी तरह से आवश्यक नहीं है। लाखों लोग पूरी तरह से इसके बिना कार्य शुरू कर रहे हैं। जब एक बार संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने विशाल लम्बाई चौड़ाई के देश में इसके निर्माण एवं विक्रय को पूरी तरह से रोकने का कानून पास कर दिया है, तब भारत में लोगों को शराब की आवश्यकता नहीं है और उन्हें इससे पूरी तरह बचना चाहिए। छोटी मात्रा में भी अल्कोहल का नियमित उपयोग, शरीर के विभिन्न अंगों को कई तरीकों से नुकसान पहुँचाता है। यह यकृत को प्रभावित करता है, यह मानसिक शक्तियों को कमजोर करता है और शरीर की सामान्य ऊर्जा को कम करता है।

4- Translate the following 15 Sentences into English :-

निम्नलिखित 15 वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए :-

15

- (1) याची ने दो आपराधिक प्रकरणों से संबंधित जानकारी को छिपाया था जिसमें उसे अभियोजित किया गया है।
- (2) पुलिस बल में अनुशासन की प्रकृति एवं मानक को बनाए रखा जाना आवश्यक है इस बिन्दु पर विचार करते हुए प्रत्यर्थागण का आदेश त्रुटिपूर्ण नहीं पाया जा सकता है।
- (3) अपीलार्थी द्वारा विशिष्ट प्रतिरक्षा का सहारा लिया जाना आवश्यक नहीं है परन्तु परिस्थितियों से उसके द्वारा यह यह सिद्ध किया जा सकता है कि उसने निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए उक्त कृत्य किया था।
- (4) क्षतियां संयुक्त रूप से सामान्य प्रकृति में मृत्यु कारित करने हेतु पर्याप्त थीं परन्तु उक्त क्षतियों में से कोई भी क्षति मृत्यु कारित करने हेतु पृथक रूप से पर्याप्त नहीं थी।
- (5) शरीर की प्रतिरक्षा का अधिकार बदला लेने के लिये नहीं होता है।
- (6) यदि पीड़ित कोई बालिका है तो चिकित्सकीय परीक्षण किसी महिला डाक्टर द्वारा ही किया जावेगा।
- (7) अर्द्ध न्यायिक प्राधिकारी को उसके निष्कर्षों के समर्थन में कारणों को अभिलिखित करना चाहिए।
- (8) लाभ में भाग प्राप्त करना साझेदारी की विद्यमानता का निश्चयक सबूत नहीं है।
- (9) केन्द्र सरकार किसी मामले या मामलों के किसी वर्ग या समूह के लिये विशेष लोक अभियोजक भी नियुक्त कर सकेगी।
- (10) शुल्क से प्रभार्य कोई भी लिखत जब तक वह सम्यक् रूप से स्ताम्पित नहीं है, किसी भी प्रयोजन के लिए साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगी।
- (11) शहीद भगत सिंह के अमर बलिदान की कहानी विश्वव्यापी हो गई है।
- (12) उसने न केवल काम किया बल्कि पैसे भी नहीं लिये।
- (13) यह खेदजनक बात है कि हमारे देश में आवश्यकता से अधिक अनाज होते हुए भी यहाँ लोग भूख से मर रहे हैं।
- (14) तुम्हें यह अजीब लग सकता है परंतु यह सत्य है।
- (15) शासन के पक्ष में उपलब्ध उपधारणा किसी निजी व्यक्ति के पक्ष में उपलब्ध नहीं है।

5- Translate the following 15 Sentences into Hindi :-

निम्नलिखित 15 वाक्यों का हिन्दी में अनुवाद कीजिए :-

15

- (1) Question of the validity of sanction has not been pursued at the time of Pendency of the trial.
- (2) Freedom of speech, expression and press lies at the root of all democratic organization.
- (3) National Anthem is regarded as honour and symbol of sovereignty of India.
- (4) Not only initial impossibility renders an agreement void but subsequent impossibility also renders a contract void.
- (5) The parties may submit all documents alongwith their statements they consider to be relevant.
- (6) Judges in modern democratic states always function without fear and any hope of favour.
- (7) The blood stained cloths and knife produced in the case be destroyed after the period of appeal.
- (8) The seized notes were not properly sealed.
- (9) Every original order passed by a Revenue Officer in any proceedings shall contain a concise statement of the case.
- (10) The boy who had punished for stealing a book twenty years back, today he has been sentenced to capital punishment.
- (11) On hearing of the sever sentence passed by the magistrate, the accused began to cry loudly and bitterly.
- (12) Nevertheless, it is true that male orchestral players are in an overwhelming majority.
- (13) Innumerable people have died due to food poisoning and consumption of spurious liquor.
- (14) There is a dire need of economic reforms to improve the stagnating economic condition of the country.
- (15) The mediator shall be guided by principles of fairness and Justice.
